



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 3 नवम्बर, 2022

कार्तिक 12, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 3372/9-1-2022-69परि0-22

लखनऊ, 3 नवम्बर, 2022

अधिसूचना

प0आ0-917

चूँकि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 11-ख की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा नगर पालिका परिषद लोनी, जिला गाजियाबाद के नगर निकाय क्षेत्र के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में जनसामान्य से आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित करने हेतु अनन्तिम अधिसूचना संख्या 2493/9-1-2022-69परि0-22, दिनांक 14 सितम्बर, 2022 निर्गत की गयी थी एवं तत्क्रम में प्राप्त आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण कराते हुए अन्तिम अधिसूचना संख्या 3283/9-1-2022-69परि0-22, दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 निर्गत की गयी थी।

और, चूँकि, उक्त अधिसूचना, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 2 सन् 1916) की धारा 9 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप नहीं है;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 11-ख की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगर पालिका परिषद लोनी, जिला गाजियाबाद के नगर निकाय क्षेत्र के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में जनसामान्य से आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित करने हेतु शासन द्वारा निर्गत अनन्तिम अधिसूचना संख्या 2493/9-1-2022-69परि0-22, दिनांक 14 सितम्बर, 2022 एवं तत्क्रम में निर्गत अन्तिम अधिसूचना संख्या 3283/9-1-2022-69परि0-22, दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 को एतद्वारा निरस्त की जाती है।

आज्ञा से,

अमृत अभिजात,

प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3372/IX-1-2022-69Pari.-22, dated November 3, 2022:

No. 3372/IX-1-2022-69Pari.-22

*Dated Lucknow, November 3, 2022*

WHEREAS in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 11-B of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 2 of 1916) (hereinafter referred to as the “aforesaid Act”) the notification no. 2493/IX-1-2022-69Pari.-22, with regard to the delimitation of wards of Municipal area of Nagar Palika Parishad Loni, district Ghaziabad was issued on September 14, 2022 and after considering objections received in pursuance of the order published the final notification no. 3283/IX-1-2022-69Pari.-22 was issued on October 31, 2022;

AND, WHEREAS, aforesaid notification has not compatible to the provision of Section 9 of Uttar Pradesh Municipalities Act. 1916 (U.P. Act No. 2 of 1916);

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 11-B of the aforesaid Act notification no. 2493/IX-1-2022-69Pari.-22, dated September 14, 2022 and the final notification no. 3283/IX-1-2022-69Pari.-22, dated October 31, 2022 with regard to the delimitation of wards of Municipal area of Nagar Palika Parishad Loni, district Ghaziabad is hereby rescinded.

By order,  
AMRIT ABHIJAT,  
*Pramukh Sachiv.*